



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 598]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 7, 2011/चैत्र 17, 1933

No. 598]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 7, 2011/CHAITRA 17, 1933

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2011

का.आ. 713(अ).—जबकि शस्त्र अधिनियम, 1959 (1959 का 54) शस्त्र और गोलाबारूद से संबंधित कानून का समेकन एवं संशोधन करता है;

और जबकि केन्द्र सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 44 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शस्त्र नियम, 1962 बनाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ उन शस्त्रों और गोलाबारूद के क्षेत्रों और श्रेणियों के लिए प्रावधान किया गया है जिनके लिए अनुज्ञप्ति प्राधिकारी लाइसेंस प्रदान कर सकता है;

और जबकि, उक्त नियमों की अनुसूची I और II के साथ पठित नियम 4 के अंतर्गत, निषिद्ध शस्त्रों के लिए केन्द्र सरकार एक मात्र अनुज्ञप्ति प्राधिकारी है;

और जबकि, 24 अगस्त, 1987 से 9 जनवरी, 2007 (दोनों दिवसों सहित) के बीच की अवधि के दौरान नागालैंड के विभिन्न जिलों में अनुज्ञप्ति प्राधिकारियों ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के उपबंधों के अंतर्गत तात्पर्यिक रूप से, कानूनी प्राधिकार के बिना निषिद्ध शस्त्रों के संबंध में, निम्नलिखित तालिका के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट, तीन सौ बावन लाइसेंस प्रदान किए थे;

और जबकि, कानूनी कमजोरी को राज्य सरकार के नोटिस में लाए जाने के बावजूद, इसके द्वारा अभी तक कोई उपचारी उपाय नहीं किए गए हैं;

अतः, अब, शस्त्र अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 17 की उप-धाराओं (9) और (10) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट, नागालैंड राज्य में, अनुज्ञप्तिदाता प्राधिकारियों द्वारा दिए गए, निम्नलिखित तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट संख्या वाले लाइसेंसों को रद्द करती है और ऐसे लाइसेंसों के धारकों को इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर अपने

लाइसेंस नजदीकी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को लौटाने तथा ऐसे शस्त्र और गोलाबारूद, जो अब विधिसम्मत नहीं रह गए हैं, को उक्त अधिनियम की धारा 21 की उप धारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत अपेक्षानुसार, बिना आवश्यक विलम्ब के, किन्तु उक्त अवधि के भीतर निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के पास जमा कराने का निर्देश देती है:-

तालिका

क्र.सं.	लाइसेंस संख्या	अनुज्ञति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)
1.	5907/टी एस जी	उपायुक्त, तुनसंग, नागालैण्ड
2.	5964/टी एस जी	उपायुक्त, तुनसंग, नागालैण्ड
3.	6334/टी एस जी	उपायुक्त, तुनसंग, नागालैण्ड
4.	6447/टी एस जी	उपायुक्त, तुनसंग, नागालैण्ड
5.	6479/टी एस जी	उपायुक्त, तुनसंग, नागालैण्ड
6.	7793/टी एस जी	उपायुक्त, तुनसंग, नागालैण्ड
7.	7794/टी एस जी	उपायुक्त, तुनसंग, नागालैण्ड
8.	7860/टी एस जी	उपायुक्त, तुनसंग, नागालैण्ड
9.	7861/टी एस जी	उपायुक्त, तुनसंग, नागालैण्ड
10.	7874/टी एस जी	उपायुक्त, तुनसंग, नागालैण्ड
11.	7434/टी एस जी	उपायुक्त, तुनसंग, नागालैण्ड
12.	7519/ टी एस जी	उपायुक्त, तुनसंग, नागालैण्ड
13.	7661/टी एस जी	उपायुक्त, तुनसंग, नागालैण्ड
14.	7672/टी एस जी	उपायुक्त, तुनसंग, नागालैण्ड
15.	7679/टी एस जी	उपायुक्त, तुनसंग, नागालैण्ड
16.	7680/टी एस जी	उपायुक्त, तुनसंग, नागालैण्ड
17.	7794/टी एस जी	उपायुक्त, तुनसंग, नागालैण्ड
18.	6605/टी एस जी	उपायुक्त, तुनसंग, नागालैण्ड
19.	6606/टी एस जी	उपायुक्त, तुनसंग, नागालैण्ड
20.	6634/टी एस जी	उपायुक्त, तुनसंग, नागालैण्ड
21.	6640/टी एस जी	उपायुक्त, तुनसंग, नागालैण्ड
22.	7143/टी एस जी	उपायुक्त, तुनसंग, नागालैण्ड
23.	7167/टी एस जी	उपायुक्त, तुनसंग, नागालैण्ड
24.	6962/टी एस जी	उपायुक्त, तुनसंग, नागालैण्ड

25.	7002/टी एस जी	उपायुक्त, तुनसंग, नागालैण्ड
26.	7003/टी एस जी	उपायुक्त, तुनसंग, नागालैण्ड
27.	7080/टी एस जी	उपायुक्त, तुनसंग, नागालैण्ड
28.	605 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
29.	693 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
30.	783 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
31.	737 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
32.	786 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
33.	797 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
34.	828 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
35.	861 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
36.	1151 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
37.	1244 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
38.	1245 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
39.	1411 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
40.	1426 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
41.	1210 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
42.	1224 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
43.	1332 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
44.	1338 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
45.	1342 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
46.	1348 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
47.	1352 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
48.	1441 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
49.	1452 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
50.	1461 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
51.	1473 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
52.	1485 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
53.	1486 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
54.	1494 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
55.	1522 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
56.	1538 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड

57.	1553 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
58.	1526 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
59.	1609 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
60.	1620 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
61.	1621 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
62.	1790 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
63.	1813 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
64.	1988 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड,
65.	2007 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
66.	2015 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
67.	2122 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
68.	2126 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
69.	2174 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
70.	2226 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
71.	2240 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
72.	2291 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
73.	2374 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
74.	2429 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
75.	2559 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
76.	2645 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
77.	2660 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
78.	2716 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
79.	2745 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
80.	2748 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
81.	2753 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
82.	2765 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
83.	2787 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
84.	2792 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
85.	2806 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
86.	2813 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
87.	2843 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड
88.	2853 एन एच/न्यू (बी)	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैण्ड

121.	178 एन एच/न्यू	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैंड
122.	4197 एन एच/न्यू	उपायुक्त, कोहिमा, नागालैंड
123.	1294/जेडबीटीओ	उपायुक्त, जुन्हेबोटो, नागालैंड
124.	1295/जेडबीटीओ	उपायुक्त, जुन्हेबोटो, नागालैंड
125.	1380/जेडबीटीओ	उपायुक्त, जुन्हेबोटो, नागालैंड
126.	1447/जेडबीटीओ	उपायुक्त, जुन्हेबोटो, नागालैंड
127.	1577/जेडबीटीओ	उपायुक्त, जुन्हेबोटो, नागालैंड
128.	1587/जेडबीटीओ	उपायुक्त, जुन्हेबोटो, नागालैंड
129.	1600/जेडबीटीओ	उपायुक्त, जुन्हेबोटो, नागालैंड
130.	1616/जेडबीटीओ	उपायुक्त, जुन्हेबोटो, नागालैंड
131.	1647/जेडबीटीओ	उपायुक्त, जुन्हेबोटो, नागालैंड
132.	2972/जेडबीटीओ	उपायुक्त, जुन्हेबोटो, नागालैंड
133.	3011/जेडबीटीओ	उपायुक्त, जुन्हेबोटो, नागालैंड
134.	3126/जेडबीटीओ	उपायुक्त, जुन्हेबोटो, नागालैंड
135.	3131/जेडबीटीओ	उपायुक्त, जुन्हेबोटो, नागालैंड
136.	1937/जेडबीटीओ	उपायुक्त, जुन्हेबोटो, नागालैंड
137.	2071/जेडबीटीओ	उपायुक्त, जुन्हेबोटो, नागालैंड
138.	2191/जेडबीटीओ	उपायुक्त, जुन्हेबोटो, नागालैंड
139.	2313/जेडबीटीओ	उपायुक्त, जुन्हेबोटो, नागालैंड
140.	2553/जेडबीटीओ	उपायुक्त, जुन्हेबोटो, नागालैंड
141.	2588/जेडबीटीओ	उपायुक्त, जुन्हेबोटो, नागालैंड
142.	2589/जेडबीटीओ	उपायुक्त, जुन्हेबोटो, नागालैंड
143.	2590/जेडबीटीओ	उपायुक्त, जुन्हेबोटो, नागालैंड
144.	2591/जेडबीटीओ	उपायुक्त, जुन्हेबोटो, नागालैंड
145.	2754/जेडबीटीओ	उपायुक्त, जुन्हेबोटो, नागालैंड
146.	3427/डब्ल्यूकेए	उपायुक्त, वोखा, नागालैंड
147.	3466/डब्ल्यूकेए	उपायुक्त, वोखा, नागालैंड
148.	3489/डब्ल्यूकेए	उपायुक्त, वोखा, नागालैंड
149.	3517/डब्ल्यूकेए	उपायुक्त, वोखा, नागालैंड
150.	3539/डब्ल्यूकेए	उपायुक्त, वोखा, नागालैंड
151.	4284/डब्ल्यूकेए	उपायुक्त, वोखा, नागालैंड
152.	4303/डब्ल्यूकेए	उपायुक्त, वोखा, नागालैंड

153.	4315/डब्ल्यूकेए	उपायुक्त, वोखा, नागालैंड
154.	4350/डब्ल्यूकेए	उपायुक्त, वोखा, नागालैंड
155.	4375/डब्ल्यूकेए	उपायुक्त, वोखा, नागालैंड
156.	4084/डब्ल्यूकेए	उपायुक्त, वोखा, नागालैंड
157.	4119/डब्ल्यूकेए	उपायुक्त, वोखा, नागालैंड
158.	4123/डब्ल्यूकेए	उपायुक्त, वोखा, नागालैंड
159.	4141/डब्ल्यूकेए	उपायुक्त, वोखा, नागालैंड
160.	2678/डब्ल्यूकेए	उपायुक्त, वोखा, नागालैंड
161.	2883/डब्ल्यूकेए	उपायुक्त, वोखा, नागालैंड
162.	4567/डब्ल्यूकेए	उपायुक्त, वोखा, नागालैंड
163.	3032/डब्ल्यूकेए	उपायुक्त, वोखा, नागालैंड
164.	3477/डब्ल्यूकेए	उपायुक्त, वोखा, नागालैंड
165.	2883/डब्ल्यूकेए	उपायुक्त, वोखा, नागालैंड
166.	3032/डब्ल्यूकेए	उपायुक्त, वोखा, नागालैंड
167.	4567/डब्ल्यूकेए	उपायुक्त, वोखा, नागालैंड
168.	6323/डब्ल्यूकेए (बी)	उपायुक्त, वोखा, नागालैंड
169.	6843/डब्ल्यूकेए	उपायुक्त, वोखा, नागालैंड
170.	8248/डब्ल्यूकेए	उपायुक्त, वोखा, नागालैंड
171.	8300/डब्ल्यूकेए	उपायुक्त, वोखा, नागालैंड
172.	8471/डब्ल्यूकेए	उपायुक्त, वोखा, नागालैंड
173.	8421/डब्ल्यूकेए	उपायुक्त, वोखा, नागालैंड
174.	8607/डब्ल्यूकेए	उपायुक्त, वोखा, नागालैंड
175.	8855/डब्ल्यूकेए	उपायुक्त, वोखा, नागालैंड
176.	9195/डब्ल्यूकेए	उपायुक्त, वोखा, नागालैंड
177.	9196/डब्ल्यूकेए	उपायुक्त, वोखा, नागालैंड
178.	9608/डब्ल्यूकेए	उपायुक्त, वोखा, नागालैंड
179.	9645/डब्ल्यूकेए	उपायुक्त, वोखा, नागालैंड
180.	9746/डब्ल्यूकेए	उपायुक्त, वोखा, नागालैंड
181.	9917/डब्ल्यूकेए	उपायुक्त, वोखा, नागालैंड
182.	1894/एमकेजी न्यू	उपायुक्त, मोकोकचुंग, नागालैंड
183.	1991/एमकेजी न्यू	उपायुक्त, मोकोकचुंग, नागालैंड
184.	5097/एमकेजी	उपायुक्त, मोकोकचुंग, नागालैंड

185.	5113/एमकेजी	उपायुक्त, मोकोकचुंग, नागालैंड
186.	5176/एमकेजी	उपायुक्त, मोकोकचुंग, नागालैंड
187.	5177/एमकेजी	उपायुक्त, मोकोकचुंग, नागालैंड
188.	5178/एमकेजी	उपायुक्त, मोकोकचुंग, नागालैंड
189.	5181/एमकेजी	उपायुक्त, मोकोकचुंग, नागालैंड
190.	5163/एमकेजी	उपायुक्त, मोकोकचुंग, नागालैंड
191.	961/एमकेजी न्यू	उपायुक्त, मोकोकचुंग, नागालैंड
192.	शून्य	उपायुक्त, मोकोकचुंग, नागालैंड
193.	शून्य	उपायुक्त, मोकोकचुंग, नागालैंड
194.	डीएमआर/आर्म्स/09	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
195.	डीएमआर/आर्म्स-22	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
196.	डीएमआर/आर्म्स-26	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
197.	एनएल/डीएमआर/29	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
198.	डीएमआर/आर्म्स/118	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
199.	डीएमआर/आर्म्स/120	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
200.	3043 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
201.	3221 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
202.	3244 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
203.	3281 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
204.	3356 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
205.	3381 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
206.	3382 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
207.	3384 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
208.	3386 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
209.	3402 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
210.	3441 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
211.	3853 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
212.	3854 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
213.	3890 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
214.	3993 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
215.	4016 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
216.	4017 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड

217.	4018 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
218.	4019 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
219.	4020 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
220.	4021 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
221.	4069 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
222.	4153 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
223.	4160 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
224.	4232	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
225.	4251 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
226.	4252 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
227.	4256 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
228.	4267 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
229.	4286 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
230.	4300 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
231.	4310 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
232.	4313 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
233.	4314 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
234.	4328 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
235.	4376 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
236.	4479 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
237.	4610 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
238.	4611 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
239.	4668 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
240.	5289 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
241.	5300 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
242.	5301 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
243.	2700 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
244.	2948 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
245.	2954 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
246.	1856 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
247.	2169 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
248.	49 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड

1271 GI/11-3

249.	85 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
250.	30 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
251.	31 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
252.	3572 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
253.	3573 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
254.	4498 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
255.	4525 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
256.	4703 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
257.	4786 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
258.	4787 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
259.	4788 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
260.	4829 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
261.	4830 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
262.	4813 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
263.	4927 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
264.	4958 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
265.	4980 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
266.	4982 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
267.	4992 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
268.	5002 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
269.	5094 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
270.	5132 एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, दीमापुर, नागालैंड
271.	961/केपीई	उपायुक्त, किफिरे, नागालैंड
272.	केपीई/आर्म्स/1458	उपायुक्त, किफिरे, नागालैंड
273.	केपीई/आर्म्स/1935	उपायुक्त, किफिरे, नागालैंड
274.	केपीई/आर्म्स/1936	उपायुक्त, किफिरे, नागालैंड
275.	7860/टीएसजी	उपायुक्त, किफिरे, नागालैंड
276.	केपीई/आर्म्स/1204	उपायुक्त, किफिरे, नागालैंड
277.	केपीई/आर्म्स/1209	उपायुक्त, किफिरे, नागालैंड
278.	केपीई/आर्म्स/1211	उपायुक्त, किफिरे, नागालैंड
279.	3875/टीएसजी/केपीई/1824	उपायुक्त, किफिरे, नागालैंड
280.	11757/995/एमएम-3737/	उपायुक्त, किफिरे, नागालैंड

	टीएसजी	
281.	एलएलजी/345	उपायुक्त, लांगलैंग, नागालैंड
282.	एनएल-पीके-5668	उपायुक्त, फेक, नागालैंड
283.	एनएल-पीके-5669	उपायुक्त, फेक, नागालैंड
284.	एनएल-पीके-5670	उपायुक्त, फेक, नागालैंड
285.	5676-पीके-एनएल	उपायुक्त, फेक, नागालैंड
286.	एनएल-पीके-5123	उपायुक्त, फेक, नागालैंड
287.	एनएल-पीके-5649	उपायुक्त, फेक, नागालैंड
288.	एनएल-पीके-5664	उपायुक्त, फेक, नागालैंड
289.	3390एनएच/92(पीआरएन)	उपायुक्त, पेरेन, नागालैंड
290.	7567 एनएच/न्यू	उपायुक्त, पेरेन, नागालैंड
291.	7756 एनएच/न्यू	उपायुक्त, पेरेन, नागालैंड
292.	1244 एनएच/न्यू	उपायुक्त, पेरेन, नागालैंड
293.	3116 एनएल/न्यू/पीआरएन	उपायुक्त, पेरेन, नागालैंड
294.	966/एनएल/डीएमआर	उपायुक्त, पेरेन, नागालैंड
295.	2487 एनएल/न्यू	उपायुक्त, पेरेन, नागालैंड
296.	3117 एनएल/न्यू	उपायुक्त, पेरेन, नागालैंड
297.	3265 एनएल/न्यू	उपायुक्त, पेरेन, नागालैंड
298.	3285 एनएल/न्यू	उपायुक्त, पेरेन, नागालैंड
299.	3857 पेरेन	उपायुक्त, पेरेन, नागालैंड
300.	2517 एनएल/न्यू	उपायुक्त, पेरेन, नागालैंड
301.	2516 एनएल/न्यू	उपायुक्त, पेरेन, नागालैंड
302.	2569	उपायुक्त, पेरेन, नागालैंड
303.	2600 एनएल/न्यू	उपायुक्त, पेरेन, नागालैंड
304.	2650 एनएल/न्यू	उपायुक्त, पेरेन, नागालैंड
305.	2664 एनएल/न्यू	उपायुक्त, पेरेन, नागालैंड
306.	2772 एनएल/न्यू	उपायुक्त, पेरेन, नागालैंड
307.	966 एनएल/न्यू	उपायुक्त, पेरेन, नागालैंड
308.	2103 एनएल/न्यू	उपायुक्त, पेरेन, नागालैंड
309.	2129 एनएल/न्यू	उपायुक्त, पेरेन, नागालैंड
310.	2229 एनएल/न्यू	उपायुक्त, पेरेन, नागालैंड
311.	2255 एनएल/न्यू	उपायुक्त, पेरेन, नागालैंड

312.	2336	उपायुक्त, पेरन, नागालैंड
313.	2351	उपायुक्त, पेरन, नागालैंड
314.	2377	उपायुक्त, पेरन, नागालैंड
315.	3857	उपायुक्त, पेरन, नागालैंड
316.	10051	उपायुक्त, मोन, नागालैंड
317.	10130	उपायुक्त, मोन, नागालैंड
318.	10168	उपायुक्त, मोन, नागालैंड
319.	10179	उपायुक्त, मोन, नागालैंड
320.	12170	उपायुक्त, मोन, नागालैंड
321.	12171	उपायुक्त, मोन, नागालैंड
322.	12280	उपायुक्त, मोन, नागालैंड
323.	13309	उपायुक्त, मोन, नागालैंड
324.	12379	उपायुक्त, मोन, नागालैंड
325.	12438	उपायुक्त, मोन, नागालैंड
326.	12567	उपायुक्त, मोन, नागालैंड
327.	12573	उपायुक्त, मोन, नागालैंड
328.	8332	उपायुक्त, मोन, नागालैंड
329.	11541 मोन	उपायुक्त, मोन, नागालैंड
330.	11597 मोन	उपायुक्त, मोन, नागालैंड
331.	11605 मोन	उपायुक्त, मोन, नागालैंड
332.	11814 मोन	उपायुक्त, मोन, नागालैंड
333.	11830 मोन	उपायुक्त, मोन, नागालैंड
334.	11860 मोन	उपायुक्त, मोन, नागालैंड
335.	11873 मोन	उपायुक्त, मोन, नागालैंड
336.	11908 मोन	उपायुक्त, मोन, नागालैंड
337.	11910 मोन	उपायुक्त, मोन, नागालैंड
338.	10928 मोन	उपायुक्त, मोन, नागालैंड
339.	10935 मोन	उपायुक्त, मोन, नागालैंड
340.	10947 मोन	उपायुक्त, मोन, नागालैंड
341.	10949 मोन	उपायुक्त, मोन, नागालैंड
342.	10951 मोन	उपायुक्त, मोन, नागालैंड
343.	10952 मोन	उपायुक्त, मोन, नागालैंड

344.	10953 मोन	उपायुक्त, मोन, नागालैंड
345.	10960 मोन	उपायुक्त, मोन, नागालैंड
346.	10962 मोन	उपायुक्त, मोन, नागालैंड
347.	11036 मोन	उपायुक्त, मोन, नागालैंड
348.	11199 मोन	उपायुक्त, मोन, नागालैंड
349.	11277 मोन	उपायुक्त, मोन, नागालैंड
350.	12586 मोन	उपायुक्त, मोन, नागालैंड
351.	12588 मोन	उपायुक्त, मोन, नागालैंड
352.	12589 मोन	उपायुक्त, मोन, नागालैंड

[सं. वी-11026/23/2005-आम्स]

रश्मि गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 7th April, 2011

S.O. 713(E).—Whereas the Arms Act, 1959 (54 of 1959) consolidates and amends the law relating to arms and ammunition;

And whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 44 of the said Act has made the Arms Rules, 1962 providing *inter alia* for the areas and categories of arms and ammunition for which the licensing authority may grant licence;

And whereas, under rule 4 read with Schedule I and II of the said rules, the Central Government alone is the licensing authority for prohibited arms;

And whereas, during the period between 24th August, 1987 to 9th January, 2007 (both days inclusive), the licensing authorities in various districts of Nagaland had purportedly under the provisions of Section 13 of the said Act, granted three hundred and fifty-two licences, specified in column (2) of the table below, in respect of prohibited arms without authority of law;

And whereas, in spite of bringing the legal infirmity to the notice of the State Government, no remedial measures have been taken;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (9) and (10) of Section 17 of the Arms Act, 1959 (54 of 1959), the Central Government hereby revokes the licences bearing licence numbers specified in column (2) of the table given below, granted by the licensing authorities, in the State of Nagaland, specified in column (3) of the said table, and

1271 GI/11-4

directs the holders of such licences to surrender their licences to the officer in charge of the nearest police station within fifteen days from the date of publication of this order and also without unnecessary delay, but within the aforesaid period, to deposit such arms and ammunitions which have ceased to be lawful, as required under the provisions of sub-section (1) of section 21 of the said Act, with the officer in charge of the nearest police station :-

TABLE

Sl. No. (1)	Licence No. (2)	Licensing Authority (3)
1.	5907/Tsg	The Deputy Commissioner, Tuensang, Nagaland
2.	5964/Tsg	The Deputy Commissioner, Tuensang, Nagaland
3.	6334/Tsg	The Deputy Commissioner, Tuensang, Nagaland
4.	6447/Tsg.	The Deputy Commissioner, Tuensang, Nagaland
5.	6479/Tsg	The Deputy Commissioner, Tuensang, Nagaland
6.	7793/Tsg	The Deputy Commissioner, Tuensang, Nagaland
7.	7794/Tsg.	The Deputy Commissioner, Tuensang, Nagaland
8.	7860/Tsg	The Deputy Commissioner, Tuensang, Nagaland
9.	7861/Tsg.	The Deputy Commissioner, Tuensang, Nagaland
10.	7874/Tsg.	The Deputy Commissioner, Tuensang, Nagaland
11.	7434/Tsg	The Deputy Commissioner, Tuensang, Nagaland
12.	7519/Tsg.	The Deputy Commissioner, Tuensang, Nagaland
13.	7661/Tsg.	The Deputy Commissioner, Tuensang, Nagaland
14.	7672/Tsg.	The Deputy Commissioner, Tuensang, Nagaland
15.	7679/Tsg.	The Deputy Commissioner, Tuensang, Nagaland
16.	7680/Tsg.	The Deputy Commissioner, Tuensang, Nagaland
17.	7794/Tsg.	The Deputy Commissioner, Tuensang, Nagaland
18.	6605/Tsg	The Deputy Commissioner, Tuensang, Nagaland
19.	6606/Tsg.	The Deputy Commissioner, Tuensang, Nagaland
20.	6634/Tsg.	The Deputy Commissioner, Tuensang, Nagaland
21.	6640/Tsg.	The Deputy Commissioner, Tuensang, Nagaland
22.	7143/Tsg.	The Deputy Commissioner, Tuensang, Nagaland
23.	7167/Tsg.	The Deputy Commissioner, Tuensang, Nagaland
24.	6962/Tsg.	The Deputy Commissioner, Tuensang, Nagaland
25.	7002/Tsg.	The Deputy Commissioner, Tuensang, Nagaland
26.	7003/Tsg.	The Deputy Commissioner, Tuensang, Nagaland
27.	7080/Tsg.	The Deputy Commissioner, Tuensang, Nagaland
28.	605-NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
29.	693-NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
30.	783 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
31.	737 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
32.	786 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
33.	797 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland

34.	828 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
35.	861 NH/New(B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
36.	1151 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
37.	1244 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
38.	1245 NH/ New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
39.	1411 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
40.	1426 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
41.	1210 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
42.	1224 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
43.	1332 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
44.	1338 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
45.	1342 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
46.	1348 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
47.	1352 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
48.	1441 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
49.	1452 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
50.	1461 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
51.	1473 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
52.	1485 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
53.	1486 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
54.	1494 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
55.	1522 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
56.	1538 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
57.	1553 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
58.	1526 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
59.	1609 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
60.	1620 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
61.	1621 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
62.	1790 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
63.	1813 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
64.	1988 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
65.	2007 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
66.	2015 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
67.	2122 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
68.	2126 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
69.	2174 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
70.	2226 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
71.	2240 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
72.	2291 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
73.	2374 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
74.	2429 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
75.	2559 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
76.	2645 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
77.	2660 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
78.	2716 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland

79.	2745 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
80.	2748 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
81.	2753 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
82.	2765 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
83.	2787 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
84.	2792 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
85.	2806 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
86.	2813 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
87.	2843 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
88.	2853 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
89.	2913 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
90.	2919 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
91.	2955 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
92.	2981 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
93.	2997 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
94.	2995 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
95.	3019 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
96.	3026 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
97.	3027 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
98.	3071 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
99.	4029 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
100.	4038 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
101.	4042 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
102.	4044 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
103.	4048 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
104.	4049 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
105.	4050 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
106.	4058 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
107.	4061 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
108.	4070 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
109.	4086 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
110.	4101 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
111.	4113 NH/New (B)	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
112.	4120 NH/New	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
113.	4121 NH/New	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
114.	4132 NH/New	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
115.	4136 NH/New	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
116.	4140 NH/New	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
117.	4143 NH/New	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
118.	4169 NH/New	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
119.	4173 NH/New	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
120.	4176 NH/New	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
121.	178 NH/New	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
122.	4197 NH/New	The Deputy Commissioner, Kohima, Nagaland
123.	1294/Zbto	The Deputy Commissioner, Zunheboto, Nagaland

124.	1295/Zbto	The Deputy Commissioner, Zunheboto, Nagaland
125.	1380/Zbto	The Deputy Commissioner, Zunheboto, Nagaland
126.	1447/Zbto	The Deputy Commissioner, Zunheboto, Nagaland
127.	1577/Zbto	The Deputy Commissioner, Zunheboto, Nagaland
128.	1587/Zbto	The Deputy Commissioner, Zunheboto, Nagaland
129.	1600/Zbto	The Deputy Commissioner, Zunheboto, Nagaland
130.	1616/Zbto	The Deputy Commissioner, Zunheboto, Nagaland
131.	1647/Zbto	The Deputy Commissioner, Zunheboto, Nagaland
132.	2972/Zbto	The Deputy Commissioner, Zunheboto, Nagaland
133.	3011/Zbto	The Deputy Commissioner, Zunheboto, Nagaland
134.	3126/Zbto	The Deputy Commissioner, Zunheboto, Nagaland
135.	3131/Zbto	The Deputy Commissioner, Zunheboto, Nagaland
136.	1937/Zbto	The Deputy Commissioner, Zunheboto, Nagaland
137.	2071/Zbto	The Deputy Commissioner, Zunheboto, Nagaland
138.	2191/Zbto	The Deputy Commissioner, Zunheboto, Nagaland
139.	2313/Zbto	The Deputy Commissioner, Zunheboto, Nagaland
140.	2553/Zbto	The Deputy Commissioner, Zunheboto, Nagaland
141.	2588/Zbto	The Deputy Commissioner, Zunheboto, Nagaland
142.	2589/Zbto	The Deputy Commissioner, Zunheboto, Nagaland
143.	2590/Zbto	The Deputy Commissioner, Zunheboto, Nagaland
144.	2591/Zbto	The Deputy Commissioner, Zunheboto, Nagaland
145.	2754/Zbto	The Deputy Commissioner, Zunheboto, Nagaland
146.	3427/Wka	The Deputy Commissioner, Wokha, Nagaland
147.	3466/Wka	The Deputy Commissioner, Wokha, Nagaland
148.	3489/Wka	The Deputy Commissioner, Wokha, Nagaland
149.	3517/Wka	The Deputy Commissioner, Wokha, Nagaland
150.	3539/Wka	The Deputy Commissioner, Wokha, Nagaland
151.	4284/Wka	The Deputy Commissioner, Wokha, Nagaland
152.	4303/Wka	The Deputy Commissioner, Wokha, Nagaland
153.	4315/Wka	The Deputy Commissioner, Wokha, Nagaland
154.	4350/Wka	The Deputy Commissioner, Wokha, Nagaland
155.	4375/Wka	The Deputy Commissioner, Wokha, Nagaland
156.	4084/Wka	The Deputy Commissioner, Wokha, Nagaland
157.	4119/Wka	The Deputy Commissioner, Wokha, Nagaland
158.	4123/Wka	The Deputy Commissioner, Wokha, Nagaland
159.	4141/Wka	The Deputy Commissioner, Wokha, Nagaland
160.	2678/Wka	The Deputy Commissioner, Wokha, Nagaland
161.	2883/Wka	The Deputy Commissioner, Wokha, Nagaland
162.	4567/Wka	The Deputy Commissioner, Wokha, Nagaland
163.	3032/Wka	The Deputy Commissioner, Wokha, Nagaland
164.	3477/Wka	The Deputy Commissioner, Wokha, Nagaland
165.	2883/Wka	The Deputy Commissioner, Wokha, Nagaland
166.	3032/Wka	The Deputy Commissioner, Wokha, Nagaland
167.	4567/Wka	The Deputy Commissioner, Wokha, Nagaland
168.	6323/Wka (B)	The Deputy Commissioner, Wokha, Nagaland

1271 GI/11-5

169.	6843/Wka	The Deputy Commissioner, Wokha, Nagaland
170.	8248/Wka	The Deputy Commissioner, Wokha, Nagaland
171.	8300/Wka	The Deputy Commissioner, Wokha, Nagaland
172.	8471/Wka	The Deputy Commissioner, Wokha, Nagaland
173.	8421/Wka	The Deputy Commissioner, Wokha, Nagaland
174.	8607/Wka	The Deputy Commissioner, Wokha, Nagaland
175.	8855/Wka	The Deputy Commissioner, Wokha, Nagaland
176.	9195/Wka	The Deputy Commissioner, Wokha, Nagaland
177.	9196/Wka	The Deputy Commissioner, Wokha, Nagaland
178.	9608/Wka	The Deputy Commissioner, Wokha, Nagaland
179.	9645/Wka	The Deputy Commissioner, Wokha, Nagaland
180.	9746/Wka	The Deputy Commissioner, Wokha, Nagaland
181.	9917/Wka	The Deputy Commissioner, Wokha, Nagaland
182.	1894/MKG New	The Deputy Commissioner, Mokokchung, Nagaland
183.	1991/MKG New	The Deputy Commissioner, Mokokchung, Nagaland
184.	5097/MKG	The Deputy Commissioner, Mokokchung, Nagaland
185.	5113/MKG	The Deputy Commissioner, Mokokchung, Nagaland
186.	5176/ MKG	The Deputy Commissioner, Mokokchung, Nagaland
187.	5177/ MKG	The Deputy Commissioner, Mokokchung, Nagaland
188.	5178/ MKG	The Deputy Commissioner, Mokokchung, Nagaland
189.	5181/ MKG	The Deputy Commissioner, Mokokchung, Nagaland
190.	5163/ MKG	The Deputy Commissioner, Mokokchung, Nagaland
191.	961/ MKG New	The Deputy Commissioner, Mokokchung, Nagaland
192.	Nil	The Deputy Commissioner, Mokokchung, Nagaland
193.	Nil	The Deputy Commissioner, Mokokchung, Nagaland
194.	DMR/ARMS/09	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
195.	DMR/ARMS-22	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
196.	DMR/ARMS-26	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
197.	NL/DMR/-29	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
198.	DMR/ARMS/118	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
199.	DMR/ARMS/120	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
200.	3043 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
201.	3221/ NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
202.	3244 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
203.	3281 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
204.	3356 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
205.	3381 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
206.	3382 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
207.	3384 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
208.	3386 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
209.	3402 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
210.	3441 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
211.	3853 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
212.	3854 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
213.	3890 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland

214.	3993 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
215.	4016 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
216.	4017 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
217.	4018 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
218.	4019 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
219.	4020 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
220.	4021 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
221.	4069 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
222.	4153 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
223.	4160 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
224.	4232	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
225.	4251 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
226.	4252 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
227.	4256 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
228.	4267 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
229.	4286 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
230.	4300 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
231.	4310 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
232.	4313 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
233.	4314 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
234.	4328 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
235.	4376 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
236.	4479 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
237.	4610 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
238.	4611 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
239.	4668 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
240.	5289 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
241.	5300 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
242.	5301 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
243.	2700 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
244.	2948 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
245.	2954 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
246.	1856 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
247.	2169 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
248.	49 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
249.	85 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
250.	30 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
251.	31 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
252.	3572 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
253.	3573 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
254.	4498 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
255.	4525 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
256.	4703 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
257.	4786 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
258.	4787 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland

1271 GI/11-6

259.	4788 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
260.	4829 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
261.	4830 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
262.	4813 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
263.	4927 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
264.	4958 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
265.	4980 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
266.	4982 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
267.	4992 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
268.	5002 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
269.	5094 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
270.	5132 NL/DMR	The Deputy Commissioner, Dimapur, Nagaland
271.	961 / KPE	The Deputy Commissioner, Kiphire, Nagaland
272.	KPE/ARMS/1458	The Deputy Commissioner, Kiphire, Nagaland
273.	KPE/ARMS/1935	The Deputy Commissioner, Kiphire, Nagaland
274.	KPE/ARMS/1936	The Deputy Commissioner, Kiphire, Nagaland
275.	7860/TSG	The Deputy Commissioner, Kiphire, Nagaland
276.	KPE/ARMS/1204	The Deputy Commissioner, Kiphire, Nagaland
277.	KPE/ARMS/1209	The Deputy Commissioner, Kiphire, Nagaland
278.	KPE/ARMS/1211	The Deputy Commissioner, Kiphire, Nagaland
279.	3875/TSG/KPE/1824	The Deputy Commissioner, Kiphire, Nagaland
280.	11757/995/MM-3737/TSG	The Deputy Commissioner, Kiphire, Nagaland
281.	LLG/345	The Deputy Commissioner, Longleng, Nagaland
282.	NL-PK-5668	The Deputy Commissioner, Phek, Nagaland
283.	NL-PK-5669	The Deputy Commissioner, Phek, Nagaland
284.	NL-PK-5670	The Deputy Commissioner, Phek, Nagaland
285.	5676-PK-NL	The Deputy Commissioner, Phek, Nagaland
286.	NL-PK-5123	The Deputy Commissioner, Phek, Nagaland
287.	NL-PK-5649	The Deputy Commissioner, Phek, Nagaland
288.	NL-PK-5664	The Deputy Commissioner, Phek, Nagaland
289.	3390 NH/92(PRN)	The Deputy Commissioner, Peren, Nagaland
290.	7567 NH/New	The Deputy Commissioner, Peren, Nagaland
291.	7756 NH/New	The Deputy Commissioner, Peren, Nagaland
292.	1244 NH/New	The Deputy Commissioner, Peren, Nagaland
293.	3116 NL/New/Prn	The Deputy Commissioner, Peren, Nagaland
294.	966/NL/DMR	The Deputy Commissioner, Peren, Nagaland
295.	2487NL/New	The Deputy Commissioner, Peren, Nagaland
296.	3117/NL/New	The Deputy Commissioner, Peren, Nagaland
297.	3265 NL/New	The Deputy Commissioner, Peren, Nagaland
298.	3285 NL/New	The Deputy Commissioner, Peren, Nagaland
299.	3857 Peren	The Deputy Commissioner, Peren, Nagaland
300.	2517 NL/New	The Deputy Commissioner, Peren, Nagaland
301.	2516 NL/New	The Deputy Commissioner, Peren, Nagaland
302.	2569	The Deputy Commissioner, Peren, Nagaland

303.	2600 NL/New	The Deputy Commissioner, Peren, Nagaland
304.	2650 NL/New	The Deputy Commissioner, Peren, Nagaland
305.	2664 NL/New	The Deputy Commissioner, Peren, Nagaland
306.	2772 NL/New	The Deputy Commissioner, Peren, Nagaland
307.	966 NL/New	The Deputy Commissioner, Peren, Nagaland
308.	2103 NL/New	The Deputy Commissioner, Peren, Nagaland
309.	2129 NL/New	The Deputy Commissioner, Peren, Nagaland
310.	2229 NL/New	The Deputy Commissioner, Peren, Nagaland
311.	2255 NL/New	The Deputy Commissioner, Peren, Nagaland
312.	2336	The Deputy Commissioner, Peren, Nagaland
313.	2351	The Deputy Commissioner, Peren, Nagaland
314.	2377	The Deputy Commissioner, Peren, Nagaland
315.	3857	The Deputy Commissioner, Peren, Nagaland
316.	10051	The Deputy Commissioner, Mon, Nagaland
317.	10130	The Deputy Commissioner, Mon, Nagaland
318.	10168	The Deputy Commissioner, Mon, Nagaland
319.	10179	The Deputy Commissioner, Mon, Nagaland
320.	12170	The Deputy Commissioner, Mon, Nagaland
321.	12171	The Deputy Commissioner, Mon, Nagaland
322.	12280	The Deputy Commissioner, Mon, Nagaland
323.	13309	The Deputy Commissioner, Mon, Nagaland
324.	12379	The Deputy Commissioner, Mon, Nagaland
325.	12438	The Deputy Commissioner, Mon, Nagaland
326.	12567	The Deputy Commissioner, Mon, Nagaland
327.	12573	The Deputy Commissioner, Mon, Nagaland
328.	8332	The Deputy Commissioner, Mon, Nagaland
329.	11541 Mon	The Deputy Commissioner, Mon, Nagaland
330.	11597 Mon	The Deputy Commissioner, Mon, Nagaland
331.	11605 Mon	The Deputy Commissioner, Mon, Nagaland
332.	11814 Mon	The Deputy Commissioner, Mon, Nagaland
333.	11830 Mon	The Deputy Commissioner, Mon, Nagaland
334.	11860 Mon	The Deputy Commissioner, Mon, Nagaland
335.	11873 Mon	The Deputy Commissioner, Mon, Nagaland
336.	11908 Mon	The Deputy Commissioner, Mon, Nagaland
337.	11910 Mon	The Deputy Commissioner, Mon, Nagaland
338.	10928/Mon	The Deputy Commissioner, Mon, Nagaland
339.	10935/Mon	The Deputy Commissioner, Mon, Nagaland
340.	10947/Mon	The Deputy Commissioner, Mon, Nagaland
341.	10949/Mon	The Deputy Commissioner, Mon, Nagaland
342.	10951/Mon	The Deputy Commissioner, Mon, Nagaland
343.	10952/ Mon	The Deputy Commissioner, Mon, Nagaland
344.	10953/ Mon	The Deputy Commissioner, Mon, Nagaland
345.	10960/ Mon	The Deputy Commissioner, Mon, Nagaland
346.	10962/ Mon	The Deputy Commissioner, Mon, Nagaland
347.	11036/Mon	The Deputy Commissioner, Mon, Nagaland

348.	11199/ Mon	The Deputy Commissioner, Mon, Nagaland
349.	11277/Mon	The Deputy Commissioner, Mon, Nagaland
350.	12586/Mon	The Deputy Commissioner, Mon, Nagaland
351.	12588/Mon	The Deputy Commissioner, Mon, Nagaland
352.	12589/Mon	The Deputy Commissioner, Mon, Nagaland

[No. V-11026/23/2005-Arms]

RASHMI GOEL, Jt. Secy.